

गरीबी रेखा से नीचे के लोगो को फायदा देती सवास्थ्य मिशन योजनाए

By : INVC Team Published On : 17 May, 2012 09:00 PM IST

✖ शहजाद अख्तर,,
आई.एन.वी.सी.,
दिल्ली

भारत सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिये चलायी जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण सवास्थ्य मिशन योजना से दिल्ली के गरीब लोगो को काफी फायदा हो रहा है और इस योजना से लाभान्वित होने वाले लोगो की संख्या में इजाफा हो रहा है।

दिल्ली में भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण सवास्थ्य मिशन योजना के सही से क्रियान्वयन और इलाज का पैसा सम्बन्धित अस्पताल के देने की जिम्मेदारी ओरियंटल इंशोरेंस कम्पनी की है और इस कम्पनी के आंकड़े बताते हैं कि इस योजना के तहत 73000 लोगो ने अपने हेल्थ कार्ड बनवा रखे हैं और इनके इलाज के लिये दिल्ली सरकार ने 100 से ज्यादा अस्पतालों के सूचिबद्ध कर रखा है। वशZ 2010-11 में 23000 लोगो ने इस योजना का लाभ उठाया और इनके इलाज पर करोड़ों रूपये सरकार द्वारा खर्च किये गये और भविष्य में सरकार इस योजना के तहत और अस्पतालों को सूचिबद्ध करने की योजना बना रही है जिससे गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मरीजो को अधिक से अधिक इस योजना का लाभ मिल सके।

इस याजना के तहत सूचिबद्ध किये गये अस्पतालो के लिये भी सरकार मरीजों के इलाज के लिये सूचिबद्ध किये गये अस्पतालो को होने वाले परेशानियों को ध्यान रखते हुऐ सरकार ने दिल्ली मेडिकल एसोसियेशन और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 3 मई को एक महत्त्वपूर्ण बैठक हुई थी इस दिशा में शीघ्र ही कोई फैसला होने की उम्मीद है।

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/गरीबी-रेखा-से-नीचे-के-लोगो-2/>